



G20 और बेहतर वैश्विक शासन के अवसर

यह एडिटरियल 03/08/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित [“The trajectory of progress must change”](#) लेख पर आधारित है। इसमें वैश्विक शासन प्रणालियों और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिंस के लिये:

[सतत विकास लक्ष्य](#), [G20](#), [G-7](#), [मशिन लाइफ](#), [कोविड-19 महामारी](#), [वित्तीय स्थिरता](#) [बोर्ड](#), [पेरिस समझौता](#)

मेन्स के लिये:

वैश्विक शासन में स्थानीय शासन की भूमिका एवं महत्त्व

वर्ष जलवायु परिवर्तन, सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी और संघर्ष जैसे कई संकटों का सामना कर रहा है। आर्थिक विकास का वर्तमान मॉडल समतामूलक नहीं है। केवल आर्थिक विकास से विश्व की समस्याएँ हल नहीं होंगी; इसे संवहनीय और समतामूलक भी होना चाहिये।

[G20](#)—जो वैश्विक [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) के 80% और वैश्विक आबादी के दो-तर्हिाई का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक शासन के लिये सबसे प्रभावशाली मंच में से एक है। हालाँकि वर्तमान में यह गतरौध का सामना कर रहा है जहाँ [अमेरिका चाहता है कि इसके सदस्य रूस और चीन को इससे बाहर कर दें, जिन्हें वह अपने व्यक्तिगत लाभ में बाधक के रूप में देखता है।](#) G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत [G-7](#) के दबाव में नहीं आया है और चाहता है कि G20 मानव जातिके 90% भाग के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करे जो G7 के दायरे से बाहर है।

G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दुनिया के सभी नागरिकों को एक साथ लाने और दुनिया को सभी के लिये बेहतर बनाने के लिये [‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य \(One Earth, One Family, One Future\)](#) का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भारत ने G20 के लिये [LIFE \(lifestyles for sustainable development\)](#), यानी ‘सतत विकास के लिये जीवन शैली’ का दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया है। इसके लिये “संपूर्ण समाज में सामूहिक कार्यों में नहिाति सभी स्तरों पर हतिधारकों के बीच सुसंगत कार्यों” की आवश्यकता है। यह सतत जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समुदायों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को भी चहिनति करता है और इसका संवर्धन करता है।

वैश्विक शासन को आकार देने में G20 की क्या भूमिका है?

- **आर्थिक समन्वय:**
 - आर्थिक मुद्दे **राष्ट्रीय सीमाओं से परे** प्रभाव रखते हैं, इसलिये **समन्वित प्रयासों की आवश्यकता** रखते हैं।
 - G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिये अपनी आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने और उन्हें संरेखित करने तथा **वैश्विक स्थिरता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये** एक मंच के रूप में कार्य करता है।
 - G20 वैश्विक **सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक** की और **वैश्विक व्यापार में लगभग 75% की हसिसेदारी** रखता है।
- **संकट प्रबंधन:**
 - G20 का उभार वर्ष **2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया** के रूप में हुआ था। तब से इसने तत्काल चुनौतियों का समाधान करने और रकवरी के लिये रणनीति तैयार करने के लिये वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाकर संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - उल्लेखनीय है कि **कोविड-19 महामारी** की प्रतिक्रिया में **G20** के नेताओं ने वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिये एक असाधारण **'वर्चुअल लीडर्स समिट'** का आयोजन किया था। इस अवसर पर उन्होंने अनुसंधान का समर्थन करने, चिकित्सा आपूर्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करने के लिये प्रतबद्धता जताई।
- **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार:**
 - G20 वैश्विक वित्तीय प्रणाली की प्रत्यास्थता और स्थिरता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसने भविष्य के संकटों को रोकने के लिये **वित्तीय संस्थानों, वनियमों और नरीक्षण तंत्र में सुधारों पर बल** दिया है।
 - वित्तीय वनियमन के प्रति G20 की प्रतबद्धता के परिणामस्वरूप **'वित्तीय स्थिरता बोर्ड'** (Financial Stability Board- FSB) की स्थापना की गई, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में अनुशंसाएँ करता है।
- **जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:**
 - हालाँकि यह इसके प्राथमिक कार्य-दायित्व में शामिल नहीं है, लेकिन G20 ने **पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास** को भी संबोधित करने का प्रयास किया है। इस समूह के नरिणय संसाधन आवंटन, ऊर्जा नीतियों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतबद्धताओं को प्रभावित करते हैं।
- **एजेंडों को आकार देना:**
 - G20 एजेंडे तय कर सकता है और वैश्विक स्तर पर प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। इसकी चर्चाएँ प्रायः अंतरराष्ट्रीय आख्यान को आगे बढ़ाती हैं और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं।

वैश्विक शासन की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **विविध रुचियाँ और प्राथमिकताएँ:**
 - विभिन्न देशों के विविध और प्रायः परस्पर वरिधी हति और प्राथमिकताएँ हैं। **साझा समाधानों की तलाश के क्रम में इन विविध दृष्टिकोणों को संतुलित करना** बेहद चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
 - **पेरिस समझौते** जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों में जलवायु परिवर्तन प्रतबद्धताओं पर असहमति की स्थिति यह दर्शाती है कि विभिन्न देशों के विविध हति साझा समाधानों तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **समन्वित कार्रवाई का अभाव:**
 - वैश्विक शासन के लिये **सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** और नजी क्षेत्र सहित विभिन्न हतिधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।
- **असमान संसाधन वितरण:**
 - वित्तीय और तकनीकी, दोनों तरह के **संसाधनों का असमान वितरण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के मामले में विषमता पैदा करता है।**
 - विकासशील देशों में प्रायः वैश्विक शासन पहलों में पूरी तरह से भागीदारी कर सकने और उनसे लाभ उठा सकने के लिये संसाधनों एवं आधारभूत संरचना की कमी पाई जाती है।
 - नमिन आय देशों में **कोविड-19 टीकों की सीमिति पहुँच** ने समतामूलक वैश्विक सार्वजनिक कल्याण प्रदान करने में संसाधन विषमताओं और चुनौतियों को उजागर किया।
- **वैश्विक मुद्दों की जटिलता:**
 - कई वैश्विक चुनौतियाँ बहुआयामी प्रकृति रखती हैं जो **आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक आयामों तक वसितुत** हैं।
 - इन मुद्दों के समाधान के लिये व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जसिं वकिसति करना और कार्यान्वित करना जटिल सिद्ध हो सकता है।
- **शक्ति असंतुलन:**
 - विभिन्न देशों के बीच शक्ति असंतुलन से **वैश्विक शासन प्रक्रियाओं पर असमान प्रभाव** पड़ सकता है।
 - शक्तिशाली राष्ट्र **नरिणय लेने में** कम शक्तिशाली देशों की आवाज़ को दरकिनार करते हुए असंगत रूप से **अधिक नरिणय का प्रयोग** कर सकते हैं।
 - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** जैसे वैश्विक नरिणय लेने वाले निकायों में असमान प्रतनिधित्व से **दोषपूर्ण प्राथमिकताओं और समाधानों की स्थिति** बन सकती है।
- **पर्यावरणीय गतिवट और जलवायु परिवर्तन:**
 - जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिये **वैश्विक सहयोग की आवश्यकता** है। उत्तरदायित्व, **शमन रणनीतियों और संसाधन आवंटन** पर असहमतियाँ प्रभावी वैश्विक प्रतिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती हैं।
 - जलवायु वित्त प्रतबद्धताओं और उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर साझा सहमति की कमी पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग प्राप्त करने की कठिनाई को दर्शाती है।
- **अल्पवधवाद (Short-Termism) और राजनीतिक दबाव:**

- संक्षिप्त राजनीतिक चक्र (short political cycles) और अलग-अलग देशों के भीतर घरेलू दबावों से नरिणय लेने की ओर ले जा सकते हैं जो तत्काल लाभ को दीर्घकालिक वैश्विक लाभों पर प्राथमिकता देते हैं।
- तात्कालिकता या अल्पवाध पर यह फोकस जटिल, क्रमिक चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- वैश्विक शासन के मामले में G20 की चुनौतियाँ:
 - G20 की सदस्यता सीमित है जिसमें कई देश और भूभाग शामिल नहीं हैं, जो इसकी वैधता और प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है।
 - सदस्य देशों, यहाँ तक कि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच कलह की स्थिति भी वैश्विक स्तर पर बेहतर समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है।

स्थानीय शासन को सशक्त करना वैश्विक शासन को कैसे सशक्त कर सकता है?

- SDGs के लिये समुदाय-आधारित समाधान:
 - सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की चुनौतियों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों, जैसे सतत कृषि के लिये स्थानीय किसानों या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के लिये स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल करने से संदर्भ-वशिष्ट और अभिनव समाधान प्राप्त हो सकते हैं।
 - उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय किसानों को उनके वातावरण के अनुकूल जलवायु-कुशल कृषि अभ्यासों को अपनाने हेतु संलग्न करने से कृषि उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
- स्थानीय सेवाओं और प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करना:
 - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा जाल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने से प्रत्यक्ष रूप से कल्याण सुनिश्चित होता है और आघातों के प्रति संवेदनशीलता घटती है, जिससे समुदायों के लिये एक सुदृढ़ नींव का निर्माण होता है।
 - उदाहरण के लिये, दूरदराज के गाँवों में जल शोधन इकाइयों का निर्माण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ाता है और स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य संबंधी SDGs को संबोधित करता है।
- सहभागी शासन और जवाबदेही:
 - स्थानीय नागरिकों, नागरिक संगठनों और नरिवाचिता प्रतिनिधियों को संलग्न करते हुए पारदर्शी नरिणयन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करता है कि क्रियान्विति नीतियाँ समुदाय की आवश्यकताओं, विश्वास-बहाली और जवाबदेही के अनुरूप हों।
- साझा प्रगति के लिये सहकारी नेटवर्क:
 - स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और संसाधन-साझाकरण के लिये मंच स्थापित करने से समुदायों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने में मदद मिलती है।

भारत प्रगति के प्रक्षेपवक्र को कैसे बदल रहा है?

- भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन को बढ़ावा देता है जो विविधता का सम्मान करता है और राष्ट्रों एवं लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देता है।
- भारत 'LiFE' के दृष्टिकोण की वकालत करता है जो संवहनीय जीवन शैली और उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करता है, जो ग्रहीय सीमाओं और मानव गरिमा के अनुकूल है।
 - भारत अन्य देशों को इसके उदाहरण का अनुसरण करने और इसकी सफलताओं एवं असफलताओं से सीखने के लिये प्रेरित करता है।
- इन कदमों के अलावा, भारत सरकार को स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों को अपने संसाधनों एवं ज्ञान का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और इन्हें लागू करने के लिये सशक्त बनाना चाहिये।

G20 वैश्विक शासन को कैसे सुदृढ़ कर सकता है?

- सहयोगात्मक नेतृत्व और एजेंडा सेटिंग:
 - G20 को सहयोगात्मक नेतृत्व को प्राथमिकता देनी चाहिये, ऐसे एजेंडे स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो इसके सदस्य देशों के विविध हितों को दर्शाते हों और साथ ही सतत विकास, समान संसाधन वितरण और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देते हों।
 - नयिमति संवाद और परामर्श यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लिये गए नरिणय समावेशी और समग्र हों।
- संवहनीय अभ्यासों का एकीकरण:
 - G20 को आर्थिक नीतियों और नरिणयों में संवहनीयता को एकीकृत करने के लिये सक्रिय उपाय करने चाहिये।
 - इसमें हरित नरिणय को प्रोत्साहित करना, नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण का समर्थन करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
 - सदस्य राष्ट्र सामूहिक रूप से कार्बन तटस्थता लक्ष्यों के लिये प्रतिबद्धता जता सकते हैं और अपनी ऊर्जा नीतियों को पेरिस समझौते के साथ संरेखित कर सकते हैं।
- संकट का सामना करने हेतु तैयारी को सुदृढ़ बनाना:
 - संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए G20 को वैश्विक आपात स्थितियों (वित्तीय, स्वास्थ्य-संबंधी या पर्यावरणीय, जो भी हों) पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिये एक रूपरेखा स्थापित करनी चाहिये।
 - इस रूपरेखा में संकटों पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये अग्रक्रमी योजना, सूचना साझेदारी और समन्वित संसाधन आवंटन शामिल किया जा सकता है।
- संसाधन वितरण में अंतराल को दूर करना:

- असमान संसाधन वितरण की समस्या को संबोधित करने के लिये G20 को ऐसी पहल करनी चाहिये जो विकासशील देशों के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझेदारी और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करे।
 - शक्ति, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना में निवेश इन देशों को वैश्विक शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा संवहनीय समाधानों में योगदान करने के लिये सशक्त कर सकता है।
- **स्थानीय शासन को सशक्त करना:**
 - G20 को अपने सदस्य देशों को नर्णय लेने की शक्तियों और संसाधनों को हस्तांतरित करके स्थानीय समुदायों को सशक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
 - सहभागी शासन के लिये समर्थन, स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिये तंत्रों का निर्माण वैश्विक चुनौतियों से निपटने में स्थानीय पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न: वैश्विक शासन में स्थानीय शासन के महत्त्व की चर्चा कीजिये। उदाहरण देकर बताएँ कि स्थानीय शासन वैश्विक समस्याओं को हल करने में कैसे योगदान कर सकता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से कसि समूह के सभी चारों देश G-20 के सदस्य हैं?(2020)

- अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की
- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड
- ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वयितनाम
- इंडोनेशिया, जापान, सगिपुर एवं दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

प्रश्न. G-20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर वचिर कीजिये:

1. G-20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी।
2. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा भारत की G-20 प्राथमिकताओं में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (c)